

1-मारपीट, गाली-गलौज कर जान लेवा हमला करने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2022 को वादी सारिक पुत्र अब्दुल वाजिद निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के चाचा के साथ गाली गलौज कर जानलेवा हमला करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-215/22 धारा- 147, 148, 149, 323, 504, 307 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 29.05.2022 को उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त मेहरबान पुत्र खैराती व शकील पुत्र गुलाम हुसैन निवासी गण ग्राम रुस्तम नगर सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2-नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2022 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने वादी की नाबालिग नातिन के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-196/2022 धारा- 354 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 29.05.2022 उ0नि0 श्री हवेश चंद शर्मा थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त विक्रू पुत्र बालवीर निवासी ग्राम खबरी अव्वल थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

3-मारपीट, गाली गलौज कर तीन तलाक देने का आरोपी गिरफ्तार, थाना नागफनी:-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.05.2022 को वादिनी निवासिनी थाना नागफनी ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ मारपीट करने तथा तीन तलाक देने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना नागफनी पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 90/2022 धारा 498A 323 भादवि 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 29.05.2022 को उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त मोहम्मद आजम पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी करुला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-नाबालिग का अपहरण व जान से मारने की धमकी देने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2022 को वादिनी निवासिनी थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी का अपहरण कर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0-061/2022 धारा- 328, 363, 366, 376, 506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 29.05.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सक्सेना थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त इदरीश पुत्र अतीक व अभियुक्ता अंजुम पत्नी इदरीश निवासी मौ0 फरीदगंज उमरी कला थाना कांठ जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। दुष्कर्म करने के अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

5-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2022 को वादिनी निवासिनी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने वादी के भांजे द्वारा वादी की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व वादी द्वारा भाजें के परिजनों से शादी की बात कहने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी की पुत्री के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 259/22 धारा 376, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 29.05.2022 को प्र0नि0 रवीन्द्र प्रताप सिंह थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त मौ0 फैजी अली पुत्र इन्तेजाम अली निवासी ग्राम मस्तल्लीपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

6-अवैध तमंचा सहित शातिर अपराधी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेसन पाताल” के तहत आज दिनांक 29.05.2022 की रात्रि में उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित मौहम्मद शानू पुत्र शराफत हुसैन निवासी ग्राम मदारपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध 12 बोर एक नाली बंदूक व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना सोनकपुर पर 271/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

7-चोरी के समान सहित 01 युवक गिरफ्तार, थाना मझोला:-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2022 को वादी श्री सौरभ यादव पुत्र स्व0 श्री उमेश कुमार निवासी प्रकाश नगर थाना मझोला मुरादाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से 2 सोने की अंगूठी, 2 सोने की चेन, 1 सोने की नथ, 1 टीका, 2 लोंग 1 मंगलसूत्र, 3 जोडे चांदी के पायल, साडी, बर्तन व 36000/- रू0 चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना मझोला पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-346/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त क्रम में दिनांक 28.05.2022 को उ0नि0 संदीप कुमार थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित प्रकाश मे आये अभियुक्त सावेज पुत्र मौ0 नवी निवासी रहमत नगर करूला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को एक मंगल सूत्र (पीली धातु), एक टीका (पीली धातु), एक जोडी (सफेद धातु) सहित गिरफ्तार किया गया।